

गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन की सूची वर्ष 1961 से अब तक

[S samanyagyan.com/hindi/gk-nam-summits](http://samanyagyan.com/hindi/gk-nam-summits)

गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलनों की सूची 1961 से अब तक: (List of Non Aligned Movement Summits in Hindi)

गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन क्या है?

गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) राष्ट्रों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन, **संयुक्त राष्ट्र (United Nations Organisations)** के बाद देशों की सबसे बड़ी सभा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन पुरे महाद्वीप भर में भागीदार देशों के साथ बातचीत के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है।

गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का इतिहास:

गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के अंतर्गत आने वाले सभी देशों ने निश्चय किया है, कि दुनिया के वे किसी भी पावर ब्लॉक के संग या विरोध में नहीं रहेंगे। यह आंदोलन भारत के प्रधान मंत्री **पंडित जवाहर लाल नेहरू**, मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति जमाल अब्देल नासेर (Gamal Abdel Nasser) एवं यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसिप ब्रोज़ टिटो (Josip Broz Tito) का आरंभ किया हुआ है। इसकी स्थापना साल 1961 में हुई थी। वर्ष 2012 तक गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलनके सदस्यों की संख्या 120 हो चुकी है। गुट निरपेक्ष आंदोलन में अफ्रीका से 53, एशिया से 39, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से 26 और यूरोप (बेलारूस, अज़रबैजान) से 2 देश सदस्य हैं। 17 देश और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, गुट निरपेक्ष आंदोलन के पर्यवेक्षक रहे हैं।

गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका:

भारत के पूर्व उप राष्ट्रपति श्री **हामिद अंसारी (Mohammad Hamid Ansari)** ने वेनेजुएला में मारग्रेटिया द्वीप पर आयोजित होने वाले गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) के 17वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक है और भारत ने साल 1983 को नई दिल्ली में 7वें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी।

गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलनों की सूची (1961 से अब तक):

	दिनांक	स्थान (शहर व देश)
पहला	01 से 06 सितम्बर 1961	बेलग्रेड, यूगोस्लाविया
दूसरा	05 से 10 अक्टूबर 1964	काइरो, संयुक्त अरब गणराज्य
तीसरा	08 से 10 सितम्बर 1970	ल्यूसाका, जाम्बिया
चौथा	05 से 09 सितम्बर 1973	आल्जियर्स, अल्जीरिया
पाँचवा	16 से 19 अगस्त 1976	कोलंबो, श्री लंका
छठा	03 से 09 सितम्बर 1979	हवाना, क्यूबा
सातवाँ	07 से 12 मार्च 1983	नयी दिल्ली, भारत

	दिनांक	स्थान (शहर व देश)
आठवाँ	01 से 06 सितम्बर 1986	हरारे, <u>जिम्बाब्वे</u>
नौवाँ	04 से 07 सितम्बर 1989	बेलग्रेड, यूगोस्लाविया
दसवाँ	01 से 06 सितम्बर 1992	जकार्ता, <u>इंडोनेशिया</u>
ग्यारहवाँ	18 से 20 अक्टूबर 1995	कार्टेजीना दे इंडियास, <u>कोलम्बिया</u>
बारहवाँ	02 से 03 सितम्बर 1998	डर्बन, <u>दक्षिण अफ्रीका</u>
तेरहवाँ	20 से 25 फरवरी 2003	कुआला लंपुर, <u>मलेशिया</u>
चौदहवाँ	15 से 16 सितम्बर 2006	हवाना, <u>क्यूबा</u>
पंद्रहवाँ	11 से 16 जुलाई 2009	शर्म एल शीक, <u>मिस्र</u>
सोलहवाँ	26 से 31 अगस्त 2012	तेहरान, <u>ईरान</u>
सत्रहवाँ	13 से 18 सितम्बर 2016	कराकस, <u>वेनेजुएला</u>
अठारहवाँ	25 से 26 अक्टूबर 2019	<u>अज़रबैजान</u>
उन्नीसवाँ	वर्ष 2023 के अंत में	<u>युगांडा</u>

- वर्ष 2020 में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से “**कोविड-19 के खिलाफ संयुक्त**” पर आभासी गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) संपर्क समूह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था।
- इसके अलावा 30 राष्ट्राध्यक्ष और अन्य नेता शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। शिखर सम्मेलन को **संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष** और विश्व **स्वास्थ्य संगठन (WHO) के प्रमुख** ने भी संबोधित किया। यह पहली बार था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पद संभालने के बाद से NAM शिखर सम्मेलन में भाग लिया था।